

Roll. No.

Question Booklet Number

O.M.R. Serial No.

--	--	--	--	--	--	--	--

B.Com. (SEM.-IV) (NEP) EXAMINATION, 2025-26

COMMERCE

(Income Tax Law & Accounts)

Paper Code

C	0	1	0	4	0	1	T
---	---	---	---	---	---	---	---

Question Booklet Series

C

Time : 1 : 30 Hours

Max. Marks : 75

Instructions to the Examinee :

1. Do not open the booklet unless you are asked to do so.
2. The booklet contains 100 questions. Examinee is required to answer only 75 questions in the OMR Answer-Sheet provided and not in the question booklet. All questions carry equal marks.
3. Examine the Booklet and the OMR Answer-Sheet very carefully before you proceed. Faulty question booklet due to missing or duplicate pages/questions or having any other discrepancy should be got immediately replaced.
4. Four alternative answers are mentioned for each question as - A, B, C & D in the booklet. The candidate has to choose the correct / answer and mark the same in the OMR Answer-Sheet as per the direction :

(Remaining instructions on last page)

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश :

1. प्रश्न-पुस्तिका को तब तक न खोलें जब तक आपसे कहा न जाए।
2. प्रश्न-पुस्तिका में 100 प्रश्न हैं। परीक्षार्थी को केवल 75 प्रश्नों को केवल दी गई OMR आन्सर-शीट पर ही हल करना है, प्रश्न-पुस्तिका पर नहीं। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।
3. प्रश्नों के उत्तर अंकित करने से पूर्व प्रश्न-पुस्तिका तथा OMR आन्सर-शीट को सावधानीपूर्वक देख लें। दोषपूर्ण प्रश्न-पुस्तिका जिसमें कुछ भाग छपने से छूट गए हों या प्रश्न एक से अधिक बार छप गए हों या उसमें किसी अन्य प्रकार की कमी हो, उसे तुरन्त बदल लें।
4. प्रश्न-पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न के चार सम्भावित उत्तर- A, B, C एवं D हैं। परीक्षार्थी को उन चारों विकल्पों में से सही उत्तर छँटना है। उत्तर को OMR उत्तर-पत्रक में सम्बन्धित प्रश्न संख्या में निम्न प्रकार भरना है :

(शेष निर्देश अन्तिम पृष्ठ पर)

- | | |
|---|---|
| <p>1. The deduction allowable in respect of family pension is :</p> <p>(A) Nil</p> <p>(B) 30% of the pension or ₹ 15,000 whichever is less</p> <p>(C) One third of the pension</p> <p>(D) One third of the pension or ₹ 15,000 whichever is less</p> | <p>1. पारिवारिक पेंशन के सम्बन्ध स्वीकृत कटौती है :</p> <p>(A) शून्य</p> <p>(B) पेंशन का 30% या ₹ 15,000, जो भी कम हो</p> <p>(C) पेंशन का एक-तिहाई</p> <p>(D) पेंशन का एक-तिहाई या ₹ 15,000, जो भी कम हो</p> |
| <p>2. Which of the following is not a casual income :</p> <p>(A) Winnings from lotteries</p> <p>(B) Crossword puzzles games</p> <p>(C) Captial gains</p> <p>(D) Winnings from gambling or betting</p> | <p>2. निम्नलिखित में से कौन-सा आकस्मिक आय नहीं है :</p> <p>(A) लॉटरी में जीत की आय</p> <p>(B) क्रॉसवर्ड पजल्स का खेल से आय</p> <p>(C) पूँजी लाभ से आय</p> <p>(D) जुआं अथवा शर्तों की जीत से आय</p> |
| <p>3. Income of tenant from subletting the whole or a part of the house property is taxable under the head :</p> <p>(A) Income from house property</p> <p>(B) Income from business and profession</p> <p>(C) Income from other sources</p> <p>(D) None of these</p> | <p>3. किरायेदार द्वारा किराये पर ली गई मकान सम्पत्ति को पूर्णतया अथवा आंशिक रूप में पुनः किराये पर उठाने से होने वाली आय किस शीर्षक में कर योग्य होगा :</p> <p>(A) मकान सम्पत्ति से आय</p> <p>(B) व्यवसाय अथवा पेशे से आय</p> <p>(C) अन्य साधनों से आय</p> <p>(D) इनमें से कोई नहीं</p> |
| <p>4. Salary of a Member of Parliament, Member of Legislative Assembly or Council is taxable under the head of :</p> <p>(A) Income from salaries</p> <p>(B) Income from other sources</p> <p>(C) Income from business and profession</p> <p>(D) None of these</p> | <p>4. संसद सदस्य, विधानसभा या परिषद के सदस्य का वेतन किस शीर्षक के तहत कर योग्य है :</p> <p>(A) वेतन से आय</p> <p>(B) अन्य साधनों की आय</p> <p>(C) व्यवसाय अथवा पेशे से आय</p> <p>(D) इनमें से कोई नहीं</p> |

5. Voluntary Return of income shall file the return on or before the due date under :
- (A) Section 139(1)
 (B) Section 139(3)
 (C) Section 139(4)
 (D) Section 139(5)
6. Section of Best Judgement Assessment is :
- (A) 144 (B) 143
 (C) 147 (D) 148
7. Rate of TDS on lottery winnings is :
- (A) 10% (B) 15%
 (C) 25% (D) 30%
8. Tax deducted at source made by :
- (A) Employer
 (B) Government
 (C) Income Tax Department
 (D) Income Tax Payer
9. Annual Information System (AIS) provides complete information about a taxpayer for :
- (A) a calendar year
 (B) a financial year
 (C) a quarter
 (D) six month only
10. AIS containing information relating to :
- (A) TDS and TCS
 (B) Specified financial Transaction
 (C) Dividends reported by registrar and transfer agent
 (D) All of these
5. स्वैच्छिक आय विवरण दाखिल करने वाले व्यक्ति को नियत तिथि से पहले या उस तिथि तक रिटर्न दाखिल करना होगा :
- (A) धारा 139(1) के अन्तर्गत
 (B) धारा 139(3) के अन्तर्गत
 (C) धारा 139(4) के अन्तर्गत
 (D) धारा 139(5) के अन्तर्गत
6. सर्वोत्तम निर्णय कर-निर्धारण की धारा है :
- (A) 144 (B) 143
 (C) 147 (D) 148
7. लॉटरी की जीत पर कर कटौती की दर है :
- (A) 10% (B) 15%
 (C) 25% (D) 30%
8. उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जाती है
- (A) नियोक्ता द्वारा
 (B) सरकार द्वारा
 (C) आयकर विभाग द्वारा
 (D) आयकर दाता द्वारा
9. वार्षिक सूचना प्रणाली (एआईएस) सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करती है :
- (A) एक कैलेंडर वर्ष के लिए
 (B) एक वित्तीय वर्ष के लिए
 (C) एक त्रिमाही के लिए
 (D) केवल छह माह के लिए
10. ए.आई.एस. सूचनाओं को संग्रहित करता है :
- (A) टीडीएस एवं टीसीएस सम्बन्धित
 (B) विशिष्ट वित्तीय लेनदेन से सम्बन्धित
 (C) रजिस्ट्रार और हस्तांतरण अभिकर्ता द्वारा रिपोर्ट किये गये लाभांश को
 (D) उपरोक्त सभी

11. The maximum deduction of interest on loan is taken for construction of house given on rent is :
- (A) ₹ 1,50,000
(B) ₹ 2,00,000
(C) ₹ 5,00,000
(D) No limit
12. The basis of computation of income under the head 'Income from house property' is :
- (A) Municipal value
(B) Standard Rent
(C) Rent Received
(D) Annual value
13. Which of the following is not a capital Assets ?
- (A) Jewellery
(B) Goodwill of a business
(C) Stock in trade
(D) Agricultural land in Delhi
14. How many types of capital Assets are :
- (A) Short term Capital Asset
(B) Midterm Capital Assets
(C) Long-term Capital Assets
(D) Both (A) and (C)
15. Short-term capital loss can-be set off against :
- (A) Any other short term capital Gain
(B) Long-term capital Gains
(C) Both (A) and (B)
(D) None of these
11. किराये पर उठे हुए मकान के निर्माण हेतु लिए गये ऋण पर ब्याज की अधिकतम कटौती की सीमा है :
- (A) ₹ 1,50,000
(B) ₹ 2,00,000
(C) ₹ 5,00,000
(D) कोई सीमा नहीं
12. 'मकान सम्पत्ति से आय' शीर्षक के अन्तर्गत आय गणना का आधार होता है :
- (A) नगरपालिका मूल्य
(B) मानक किराया
(C) प्राप्त किराया
(D) वार्षिक मूल्य
13. निम्न में से कौन-सा पूँजी सम्पत्ति नहीं है?
- (A) आभूषण
(B) व्यवसाय की ख्याति
(C) व्यापारिक माल का रहतिया
(D) दिल्ली स्थित कृषि भूमि
14. पूँजी सम्पत्ति कितने प्रकार की होती है :
- (A) अल्पकालीन पूँजी सम्पत्ति
(B) मध्यकालीन पूँजी सम्पत्ति
(C) दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्ति
(D) दोनों (A) और (C)
15. अल्पकालीन पूँजी हानि की क्षतिपूर्ति की जा सकती है :
- (A) अन्य अल्पकालीन पूँजी लाभ से
(B) दीर्घकालीन पूँजी लाभ से
(C) (A) और (B) दोनों से
(D) इनमें से कोई नहीं

16. Minor's income is clubbed to :
- (A) Father's income
(B) Mother's income
(C) Both Father's and Mother's income
(D) Father's or Mother's income whichever is greater
17. Sections related to income chargeable under the head profit and gains of business or profession are :
- (A) Sections 28 to 44 AD
(B) Sections 15 to 17
(C) Sections 22 to 27
(D) Sections 60 to 64
18. Income arising to a minor married daughter is :
- (A) to be assessed in the hands of the minor married daughter
(B) to be clubbed with the income of her husband who is major
(C) completely exempt for tax
(D) to be clubbed with the income of that parent whose total income is higher
19. Loss from speculation business can be setoff from :
- (A) Income of speculative business
(B) Income of any head
(C) Income of non speculative business
(D) Not from any income
16. अवयस्क की आय शामिल की जाती है :
- (A) पिता की आय में
(B) माता की आय में
(C) माता-पिता दोनों की आय में
(D) माता या पिता जिसकी आय अधिक हो में
17. व्यवसाय अथवा पेशे से आय शीर्षक की आय से सम्बन्धित धाराएँ हैं :
- (A) धारा 28 से 44 AD
(B) धारा 15 से 17
(C) धारा 22 से 27
(D) धारा 60 से 64
18. अवयस्क विवाहित पुत्री की आय :
- (A) अवयस्क विवाहित पुत्री के हाथों में कर योग्य है
(B) उसके पति की आय में शामिल की जाएगी जो वयस्क हो
(C) कर से पूर्णतः कर मुक्त है
(D) माता या पिता की आय में शामिल की जाएगी जिसकी आय अवयस्क की आय जोड़े बिना अधिक होगी
19. सट्टे के व्यवसाय की हानि की पूर्ति की जा सकती है :
- (A) सट्टे के व्यवसाय की आय से
(B) किसी भी शीर्षक की आय से
(C) गैर सट्टे के व्यवसाय की आय से
(D) किसी भी आय से नहीं

20. Income which accrues or arises outside India and also received outside India is taxable in the hands of :
- (A) Non Resident
(B) Resident and ordinarily Resident
(C) Not ordinarily Resident
(D) All types of Resident and Non Resident
21. The presumptive taxation scheme of section 44AD cannot be adopted by :
- (A) Resident Individual
(B) Resident HUF
(C) Resident Partnership Firm
(D) Limited Liability Partnership
22. In case of person adopting the provisions of Section 44ADA income will be computed on presumptive basis, i.e. @ ____ of gross receipts of the specified profession for the year.
- (A) 25% (B) 40%
(C) 50% (D) 60%
23. Compulsory Audit of Accounts as per Income Tax Act, 1961 covered in :
- (A) 44AB (B) 44AD
(C) 44ADA (D) 44AE
24. Under which head the family pension is taxable :
- (A) Income from salaries
(B) Income from capital gains
(C) Income from other sources
(D) None of these
20. आय जो भारत के बाहर उपार्जित अथवा उदय हुई हो और भारत के बाहर प्राप्त हुयी हो, के हाथों में कर योग्य है।
- (A) अनिवासी
(B) निवासी और साधारण निवासी
(C) असाधारण निवासी
(D) सभी प्रकार के निवासी और अनिवासी
21. धारा 44AD के अन्तर्गत अनुमानित कराधान योजना को निम्न द्वारा नहीं अपनाया जा सकता है :
- (A) निवासी व्यक्ति
(B) निवासी हिन्दू अविभाजित परिवार
(C) निवासी साझेदारी फर्म
(D) सीमित दायित्व वाली साझेदारी फर्म
22. धारा 44ADA के प्रावधानों को अपनाने वाले व्यक्ति की दशा में आय की गणना अनुमानित आधार पर की जाएगी अर्थात् वर्ष के लिए निर्दिष्ट पेशे के सकल प्राप्ति का दर।
- (A) 25% (B) 40%
(C) 50% (D) 60%
23. खाता पुस्तकों का अनिवार्य अंकक्षण आयकर अधिनियम की धारा के अन्तर्गत होता है।
- (A) 44AB (B) 44AD
(C) 44ADA (D) 44AE
24. पारिवारिक पेंशन किस शीर्षक के अन्तर्गत कर योग्य होती है :
- (A) वेतन से आय
(B) पूँजी लाभ से आय
(C) अन्य साधनों की आय
(D) इनमें से कोई नहीं

25. What would be the 'Assessment Year' of the Financial Year 2025-26 ?
- (A) 2024-25
(B) 2025-26
(C) 2026-27
(D) 2027-28
26. Which of the following is an Agricultural Income ?
- (A) 'Rent received from Agricultural land
(B) Income from dairy farm
(C) Income from a poultry farming
(D) Dividend from a company engaged in Agriculture
27. Income from the sale of coffee grown, cured, roasted and grinded is considered as Business Income in India is :
- (A) 40% (B) 25%
(C) 30% (D) 35%
28. A company does not become the following in previous year :
- (A) Ordinarily Resident
(B) Not ordinarily Resident
(C) Non Resident
(D) None of these
29. Exempted Income is :
- (A) Interest from domestic company
(B) Dividend from foreign company
(C) Dividend from a Domestic company
(D) None of these
25. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कर-निर्धारण वर्ष क्या होगा?
- (A) 2024-25
(B) 2025-26
(C) 2026-27
(D) 2027-28
26. निम्न में से कौन-सी कृषि आय है?
- (A) कृषि भूमि से प्राप्त किराया
(B) डेयरी-फार्म से आय
(C) मुर्गी पालन से आय
(D) कृषि कार्य में लगी हुई कम्पनी से लाभांश की आय
27. भारत में कॉफी उगाकर उसको संसाधित करके, भून कर एवं पीस कर बेचने से आय का भाग व्यावसायिक आय होती है।
- (A) 40% (B) 25%
(C) 30% (D) 35%
28. एक कम्पनी गत वर्ष में नहीं हो सकता है:
- (A) साधारण निवासी
(B) असाधारण निवासी
(C) अनिवासी
(D) इनमें से कोई नहीं
29. कर मुक्त आय है :
- (A) घरेलू कम्पनी से ब्याज
(B) विदेशी कम्पनी से लाभांश
(C) घरेलू कम्पनी से लाभांश
(D) इनमें से कोई नहीं

30. Long-term capital loss can be setoff from :
- (A) Short-term capital gains
(B) Long-term capital gains
(C) Capital gains
(D) Any income
31. Deduction u/s 80C is not available to :
- (A) Individual
(B) HUF
(C) Company
(D) All of these
32. The total of all heads of income is called :
- (A) Gross total income
(B) Total income
(C) Taxable income
(D) Adjusted income
33. Surcharge on income tax is payable by :
- (A) Individual and HUF
(B) Domestic company
(C) Foreign company
(D) All of these
34. The alternative minimum tax is payable by the HUF if the adjusted total income exceeds :
- (A) ₹ 10 lakhs (B) ₹ 20 lakhs
(C) ₹ 50 lakhs (D) ₹ 1 crore
35. The return of income is to be furnished in :
- (A) Form 26AS
(B) ITR 1 to 7 (as the case may be)
(C) Form 26QB
(D) None of these
30. दीर्घकालीन पूँजी हानि की पूर्ति की जा सकती है :
- (A) अल्पकालीन पूँजी लाभ से
(B) दीर्घकालीन पूँजी लाभ से
(C) पूँजी लाभ से
(D) किसी भी आय से
31. धारा 80C की कटौती निम्नलिखित को उपलब्ध नहीं है :
- (A) व्यक्ति
(B) हिन्दू अविभाजित परिवार
(C) कम्पनी
(D) इनमें से सभी
32. सभी शीर्षकों के आय के योग को कहा जाता है :
- (A) सकल कुल आय
(B) कुल आय
(C) कर योग्य आय
(D) समायोजित आय
33. आयकर पर अधिभार का भुगतान किसके द्वारा किया जाता है?
- (A) व्यक्ति एवं एच.यू.एफ.
(B) घरेलू कम्पनी
(C) विदेशी कम्पनी
(D) इनमें से सभी
34. हिन्दू अविभाजित परिवार के द्वारा वैकल्पिक न्यूनतम कर देय होगा यदि समायोजित कुल आय से अधिक हो :
- (A) ₹ 10 लाख (B) ₹ 20 लाख
(C) ₹ 50 लाख (D) ₹ 1 करोड़
35. आय का रिटर्न किस फार्म के द्वारा दाखिल किया जाना चाहिए :
- (A) फार्म 26AS
(B) आईटीआर-1 से 7 (जैसा भी मामला हो)
(C) फार्म 26QB
(D) इनमें से कोई नहीं

36. Exempted income of a partner from the firm is :
- (A) Salaries from partnership firm
(B) Interest from partnership firm
(C) Share of profit in the firm's Income
(D) All of these
37. Salary includes :
- (A) Cash receipts
(B) Perquisites
(C) Profit in lieu of salary
(D) All of these
38. Which of the following Allowance is totally exempt from the Income Tax ?
- (A) Foreign Allowance
(B) House Rent Allowance
(C) Dearness Allowance
(D) City Compensatory Allowance
39. Maximum amount of exemption in case of compensation on voluntary retirement is :
- (A) ₹ 3,00,000
(B) ₹ 5,00,000
(C) ₹ 20,00,000
(D) ₹ 25,00,000
40. The annual value of self-occupied house is :
- (A) Fair rent
(B) Municipal Valuation
(C) (A) and (B) whichever is less
(D) Nil
36. साझेदार की फर्म से कर मुक्त आय है :
- (A) साझेदारी फर्म से वेतन
(B) साझेदारी फर्म से ब्याज
(C) साझेदारी फर्म की आय में हिस्सा
(D) इनमें से सभी
37. वेतन में शामिल होता है :
- (A) नकद प्राप्तियाँ
(B) अनुलाभ
(C) वेतन के स्थान पर लाभ
(D) इनमें से सभी
38. निम्नलिखित में से कौन-सा भत्ता आयकर से पूर्णतः कर मुक्त है?
- (A) विदेश भत्ता
(B) मकान किराया भत्ता
(C) महंगाई भत्ता
(D) नगर क्षतिपूरक भत्ता
39. स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करने पर क्षतिपूर्ति की अधिकतम कर मुक्त राशि है :
- (A) ₹ 3,00,000
(B) ₹ 5,00,000
(C) ₹ 20,00,000
(D) ₹ 25,00,000
40. स्वयं के रहने के मकान का वार्षिक मूल्य होता है :
- (A) उचित किराया
(B) नगरपालिका मूल्यांकन
(C) (A) और (B) दोनों में से जो कम हो।
(D) शून्य

41. For an individual, having income from salary or family pension and interest the prescribed form is :
- (A) ITR - 1
(B) ITR - 2
(C) ITR - 4
(D) ITR - 5
42. Income Tax return form for filling a statement of income for a salaried individual is :
- (A) ITR - 1
(B) ITR - 4
(C) ITR - 3
(D) ITR - 5
43. Rebate u/s 87(A) applies to :
- (A) Companies
(B) Individuals
(C) Firms
(D) HUF
44. How many types of Assessment are :
- (A) Regular Assessment
(B) Best Judgement Assessment
(C) Re Assessment
(D) All of these
45. Assessing Officer is :
- (A) Assitant Commissioner
(B) Deputy Commissioner
(C) Income Tax Officer
(D) All of these
41. एक व्यक्ति की दशा में, जिसकी आय वेतन, पारिवारिक पेंशन और ब्याज से होती है, आय का रिटर्न भरने का निर्धारित फार्म कौन-सा है :
- (A) आईटीआर-1
(B) आईटीआर-2
(C) आईटीआर-4
(D) आईटीआर-5
42. वेतनभोगी व्यक्ति के लिए आयकर विवरण भरने हेतु आयकर रिटर्न फार्म है :
- (A) आईटीआर-1
(B) आईटीआर-4
(C) आईटीआर-3
(D) आईटीआर-5
43. धारा 87(A) के अन्तर्गत छूट निम्नलिखित पर लागू होती है :
- (A) कम्पनियों पर
(B) व्यक्तियों पर
(C) फर्मों पर
(D) हिन्दू अविभाजित परिवार पर
44. कर निर्धारण के प्रकार हैं :
- (A) नियमित कर निर्धारण
(B) सर्वोत्तम कर निर्धारण
(C) पुनः कर निर्धारण
(D) इनमें से सभी
45. मूल्यांकन अधिकारी है :
- (A) सहायक आयुक्त
(B) उप आयुक्त
(C) आयकर अधिकारी
(D) इनमें से सभी

46. 'Pay As You Earn' scheme means :
- (A) Advance payment of tax
 (B) Pay tax simultaneously along with the earning of income
 (C) Tax is paid on the current year's income in the same year
 (D) All of these
47. Liability to pay advance tax arises when tax payable is :
- (A) ₹ 5,000
 (B) ₹ 10,000 or more
 (C) ₹ 15,000 or more
 (D) ₹ 20,000 or more
48. Refund of tax arises on account of following :
- (A) The total tax deducted at source is higher than the amount of tax liability as determined by one regular assessment
 (B) The amount of advance tax paid or the tax paid on the basis of self assessment exceeds the tax liability as determined on regular assessment
 (C) By the rectification of mistake
 (D) All of these
49. Filing of Income Tax return is mandatory if income exceeds :
- (A) Basic exemption limit
 (B) ₹ 2,50,000
 (C) ₹ 5,00,000
 (D) ₹ 7,00,000
46. 'चुकाओ जैसे कमाओ' योजना का आशय है :
- (A) कर का अग्रिम भुगतान
 (B) जैसे-जैसे आय कमाया जाता है वैसे-वैसे कर चुकाया जाता है
 (C) चालू वर्ष की आय पर उसी वर्ष में कर दे दिया जाता है
 (D) इनमें से सभी
47. अग्रिम कर दायित्व उत्पन्न होता है जब देय कर की राशि है :
- (A) ₹ 5,000
 (B) ₹ 10,000 या अधिक
 (C) ₹ 15,000 या अधिक
 (D) ₹ 20,000 या अधिक
48. 'कर वापसी' निम्नलिखित कारणों से होती है :
- (A) उद्गम स्थान पर काटा गया कुल कर नियमित मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित कर देयता से अधिक है
 (B) अग्रिम कर भुगतान की गई राशि या स्व मूल्यांकन के आधार पर भुगतान किया गया कर नियमित मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित कर देयता से अधिक है
 (C) गलती के सुधार के द्वारा
 (D) इनमें से सभी
49. यदि आय से अधिक है तो आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य है।
- (A) आधारभूत छूट सीमा
 (B) ₹ 2,50,000
 (C) ₹ 5,00,000
 (D) ₹ 7,00,000

50. Which authority is the apex body for the administration of Direct Taxes in India ?
- (A) Ministry of Corporate Affairs
(B) Finance Commission
(C) Central Board of Direct Taxes
(D) Reserve Bank of India
51. Any Profit or gain arising from the transfer of capital Assets is taxable under the head of :
- (A) Income from salary
(B) Income from other sources
(C) Income from house property
(D) Income from capital gains
52. Agricultural Income is exempted from central Income Tax under section :
- (A) 10 (1)
(B) 11
(C) 10 (5)
(D) 13 (A)
53. The "Assessment year" is the period of 12 months commencing on the 1st day of April every year and ending on :
- (A) 31st March of the same year
(B) 31st March of the next year
(C) 31st December of the same year
(D) 30th June of the next year
54. Income of a minor child is clubbed with the income of the parent :
- (A) Whose income is higher
(B) Divided equally between both parents
(C) Both (A) and (B)
(D) None of these
50. भारत में प्रत्यक्ष करों के प्रशासन के लिए सर्वोच्च निकाय कौन-सा प्राधिकरण है?
- (A) कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय
(B) वित्त आयोग
(C) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
(D) भारतीय रिजर्व बैंक
51. पूँजी सम्पत्ति के हस्तांतरण से उदय होने वाला लाभ निम्न शीर्षक के अन्तर्गत कर योग्य है :
- (A) वेतन से आय
(B) अन्य साधनों से आय
(C) मकान सम्पत्ति से आय
(D) पूँजी लाभ से आय
52. कृषि आय, केन्द्रीय आयकर के किस धारा के द्वारा मुक्त है :
- (A) 10(1)
(B) 11
(C) 10(5)
(D) 13(A)
53. 'कर निर्धारण वर्ष' 12 महीनों की वह अवधि है जो हर साल 1 अप्रैल को शुरू होता है और को समाप्त होता है :
- (A) उसी वर्ष के 31 मार्च
(B) अगले वर्ष के 31 मार्च
(C) उसी वर्ष के 31 दिसम्बर
(D) अगले वर्ष के 30 जून
54. अवयस्क बच्चे की आय, उस माता-पिता के साथ जोड़ा जाएगा :
- (A) जिनकी आय अधिक है
(B) दोनों माता-पिता के बीच समान रूप से विभाजित
(C) दोनों (A) और (B)
(D) इनमें से कोई नहीं

55. What is the status of a person if they are an individual, HUF, Company or firm under the income tax Act ?
- (A) Assessee
(B) Resident
(C) Person
(D) Taxpayer
56. What is the age limit for an individual to be classified as a 'senior citizen' for tax purposes ?
- (A) 80 years (B) 60 years
(C) 65 years (D) 55 years
57. The permanent Account Number (PAN) Consists of how many alphanumeric characters ?
- (A) 10 (B) 12
(C) 15 (D) 16
58. What is the maximum limit for deduction for preventive Health check-up within the section 80 D limit ?
- (A) ₹ 5,000 (B) ₹ 10,000
(C) ₹ 75,000 (D) ₹ 50,000
59. Loss from House property can be carried forward for how many assessment years ?
- (A) Indefinite Period
(B) 08 years
(C) 04 years
(D) Not allowed to carry forward
60. Which head of income includes 'Family Pension 'received by legal' heirs of a deceased employee ?
- (A) Capital Gains
(B) Income from Salaries
(C) Profit and Gains of Business
(D) Income from other sources
55. आयकर अधिनियम के अन्तर्गत, एक व्यक्ति की क्या स्थिति होगी यदि वे व्यक्ति, एच.यू.एफ., कम्पनी या फर्म हो?
- (A) करदाता
(B) निवासी
(C) व्यक्ति
(D) कर चुकाने वाला
56. कर गणना के उद्देश्य से वरिष्ठ नागरिक के रूप में वर्गीकृत व्यक्ति के लिए आयु की क्या सीमा है?
- (A) 80 वर्ष (B) 60 वर्ष
(C) 65 वर्ष (D) 55 वर्ष
57. स्थायी खाता संख्या में कितने अक्षरांकीय वर्ण होते हैं?
- (A) 10 (B) 12
(C) 15 (D) 16
58. धारा 80D के अन्तर्गत स्वास्थ्य की निवारक जाँच पड़ताल के लिए कटौती की अधिकतम सीमा क्या है?
- (A) ₹ 5,000 (B) ₹ 10,000
(C) ₹ 75,000 (D) ₹ 50,000
59. मकान सम्पत्ति की हानि को कितने कर निर्धारण वर्षों तक आगे ले जाया जा सकता है :
- (A) अनिश्चित अवधि के लिए
(B) 08 वर्षों तक
(C) 4 वर्षों के लिए
(D) आगे ले जाने की अनुमति नहीं
60. मृतक कर्मचारी के कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा प्राप्त 'पारिवारिक पेंशन' आय के किस शीर्षक में शामिल होगा?
- (A) पूँजी लाभ में
(B) वेतन से आय में
(C) व्यवसाय से लाभ में
(D) अन्य साधनों की आय में

61. The period of holding for unlisted shares to be considered long-term capital assets is :
- (A) 12 months
(B) 24 months
(C) 36 months
(D) 48 months
62. Which of the following is not a capital assets ?
- (A) Jewellery
(B) Archaeological Collections
(C) Movable property for personal use
(D) Residential house
63. Depreciation under section 32 is allowed on :
- (A) Cost price only
(B) Written down value
(C) Market value
(D) Straight line Method
64. What is the maximum deduction limit available under section 80C of the income tax act ?
- (A) ₹ 50,000
(B) ₹ 1,00,000
(C) ₹ 1,50,000
(D) ₹ 2,00,000
65. Under section 80D. What is the maximum deduction for health insurance premiums paid for a senior citizen parent ?
- (A) ₹ 25,000
(B) ₹ 50,000
(C) ₹ 75,000
(D) ₹ 1,00,000
61. गैर सूचीबद्ध अंशों को दीर्घकालीन पूँजीगत सम्पत्ति माने जाने के लिए रहने (धारण) की अवधि है :
- (A) 12 महीने
(B) 24 महीने
(C) 36 महीने
(D) 48 महीने
62. निम्नलिखित में से कौन-सा पूँजी सम्पत्ति नहीं है?
- (A) आभूषण
(B) पुरातत्वीय संग्रहण
(C) व्यक्तिगत उपयोग की चल सम्पत्तियाँ
(D) आवासीय घर
63. धारा 32 के अन्तर्गत मूल्य ह्रास निम्नलिखित के लिए स्वीकृत है :
- (A) केवल लागत मूल्य
(B) अपलिखित मूल्य विधि
(C) बाजार मूल्य
(D) सीधी रेखा विधि
64. आयकर अधिनियम के धारा 80C के अन्तर्गत, अधिकतम कटौती की सीमा क्या है?
- (A) ₹ 50,000
(B) ₹ 1,00,000
(C) ₹ 1,50,000
(D) ₹ 2,00,000
65. धारा 80D के अन्तर्गत, वरिष्ठ नागरिक के लिए दिए गए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर अधिकतम कितनी कटौती मिलती है:
- (A) ₹ 25,000
(B) ₹ 50,000
(C) ₹ 75,000
(D) ₹ 1,00,000

66. Which form shows consolidated Tax Credit Statement provided by the IT department ?
- (A) Form 16
(B) Form 26 AS
(C) Form 15 G
(D) Form 16 A
67. An assessee is liable to pay Advance Tax if their estimated tax liability for the year (after TDS) is :
- (A) ₹ 5,000 or more
(B) ₹ 10,000 or more
(C) ₹ 20,000 or more
(D) ₹ 25,000 or more
68. The first Income Tax Act was introduced in India by James Wilson in :
- (A) 1857
(B) 1860
(C) 1886
(D) 1922
69. Income Tax is a _____ tax.
- (A) Indirect
(B) Direct and Progressive
(C) Proportional
(D) Regressive
70. As per the definition of "Person" u/s 2(31), Which of the following is not included ?
- (A) A minor
(B) An Individual
(C) An Artificial juridical person
(D) A Local-Authority
66. आयकर विभाग द्वारा प्रदान किया गया समेकित 'जमा कर विवरण' कौन-सा फार्म दिखाता है।
- (A) फार्म 16
(B) फार्म 26AS
(C) फार्म 15G
(D) फार्म 16A
67. एक करदाता अग्रिम कर देने के लिए तब उत्तरदायी होता है यदि उस वर्ष के लिए उसकी अनुमानित कर देनदारी (टीडीएस के बाद) है :
- (A) ₹ 5,000 या अधिक
(B) ₹ 10,000 या अधिक
(C) ₹ 20,000 या अधिक
(D) ₹ 25,000 या अधिक
68. भारत में पहला आयकर अधिनियम जेम्स विल्सन द्वारा किस वर्ष में पेश किया गया था?
- (A) 1857 में
(B) 1860 में
(C) 1886 में
(D) 1922 में
69. आयकर एक कर है :
- (A) अप्रत्यक्ष
(B) प्रत्यक्ष एवं प्रगतिशील
(C) अनुपातिक
(D) प्रतिगामी
70. धारा 2(31) के अन्तर्गत "व्यक्ति" की परिभाषा के अनुसार, निम्नलिखित में से किसे इसमें शामिल नहीं किया गया है?
- (A) एक अवयस्क
(B) एक व्यक्ति
(C) एक कृत्रिम विधिक व्यक्ति
(D) एक स्थानीय प्राधिकरण

71. The basic exemption limit for a resident individual aged 60 years or more but less than 80 years under the old Tax Regime is :
- (A) ₹ 2,50,000
(B) ₹ 3,00,000
(C) ₹ 5,00,000
(D) ₹ 12,00,000
72. Income Tax in India is charged at the rates prescribed by :
- (A) The Income Tax Act, 1961
(B) The Finance Act passed every year
(C) The central Board of Direct Taxes
(D) The constitution of India
73. An Individual is considered 'Resident and ordinary Resident' in India if they satisfy :
- (A) Only one basic condition
(B) Both basic conditions
(C) One basic condition and both additional condition
(D) Only the additional condition
74. Which of the following is not a head of income ?
- (A) Income from salary
(B) Income from House property
(C) Income from export Business
(D) Income from other sources
75. Surcharge is applicable on the amount of :
- (A) Income Tax
(B) Taxable Income
(C) Capital Gains only
(D) Total Income
71. 60 वर्ष से अधिक लेकिन 80 वर्ष से कम उम्र के निवासी व्यक्ति के लिए कर से छूट की आधारभूत सीमा, पुरानी कर व्यवस्था के अन्तर्गत है :
- (A) ₹ 2,50,000
(B) ₹ 3,00,000
(C) ₹ 5,00,000
(D) ₹ 12,00,000
72. भारत में आय कर के द्वारा निर्धारित दर से लगाया जाता है :
- (A) आयकर अधिनियम, 1961
(B) प्रति वर्ष पारित होने वाले वित्तीय अधिनियम
(C) प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा
(D) भारत का संविधान
73. भारत में किसी व्यक्ति को निवासी और साधारण निवासी माना जायेगा, यदि वह पूर्ण करता है :
- (A) केवल एक आधार शर्तों को
(B) दोनों आधार शर्तों को
(C) एक आधार शर्त और दोनों अतिरिक्त शर्तों को
(D) केवल अतिरिक्त शर्तों को
74. निम्नलिखित में से कौन-सा आय का शीर्षक नहीं है?
- (A) वेतन से आय
(B) मकान-सम्पत्ति से आय
(C) निर्यात के व्यवसाय से आय
(D) अन्य साधनों की आय
75. अधिभार की गणना की जाती है :
- (A) आयकर पर
(B) कर योग्य आय पर
(C) केवल पूँजी लाभ पर
(D) कुल आय पर

76. Which sections provides for a deduction in respect of interest on a loan taken for higher Education ?
- (A) Section 80 E
(B) Section 80 G
(C) Section 80 D
(D) Section 80 C
77. What is the rate of TDS on winning from lotteries or Crossword puzzles under section 194 B ?
- (A) 10%
(B) 20%
(C) 30%
(D) 40%
78. Section 80 TTA provides a deduction of upto ₹ 10,000 for interest on :
- (A) Savings Account interest
(B) Fixed Deposits
(C) Recurring Deposits
(D) Corporate Bonds
79. The deduction for donations to certain funds under section 80 G can be :
- (A) Only 50% of the donation
(B) Only 100% of the donation
(C) Either 100% or 50% depending on the fund
(D) None of these
80. Which form is issued by an employer to an employee showing the TDS deducted from salary ?
- (A) Form 16A
(B) Form 26AS
(C) Form 15G
(D) Form 16
76. उच्च शिक्षा के लिए लिये गए ऋण पर मिलने वाले ब्याज के सम्बन्ध में कटौती का प्रावधान किस धारा के अन्तर्गत है :
- (A) धारा 80E
(B) धारा 80G
(C) धारा 80D
(D) धारा 80C
77. धारा 194B के तहत लौटरी या क्रॉसवर्ड पज्जल से जीतने पर टीडीएस की दर क्या है?
- (A) 10%
(B) 20%
(C) 30%
(D) 40%
78. धारा 80 TTA के अन्तर्ग, ₹ 10,000 तक ब्याज की कटौती किस पर मिलती है?
- (A) बचत खाता के ब्याज पर
(B) स्थायी ब्याज पर
(C) आवृत्ति जमा पर
(D) कॉर्पोरेट बॉण्ड पर
79. धारा 80G के तहत निश्चित कोषों में दिए गए दान पर कितनी कटौती मिलती है?
- (A) दान की गई राशि का 50% केवल
(B) दान की गई राशि का 100% केवल
(C) कोषों के प्रकार के आधार पर 100% या 50%
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं
80. वेतन से काटे गये टीडीएस को दिखाने वाला कौन-सा फार्म नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को निगमित किया जाता है?
- (A) फार्म 16A
(B) फार्म 26AS
(C) फार्म 15G
(D) फार्म 16

81. Which of the following is not an exempt income under section 10 ?
- (A) Agricultural income in India
(B) Dividend from a foreign company
(C) Share of profit of a partner from a firm
(D) Amounts received from LIC (Subject to conditions)
82. What is the maximum amount of gratuity exempt from tax under section 10(10) for employees not covered by the payment of Gratuity Act ?
- (A) ₹ 20,00,000
(B) ₹ 25,00,000
(C) ₹ 5,00,000
(D) ₹ 10,00,000
83. What is the Standard deduction available under 'Income from House property' for the repair and maintenance of the property ?
- (A) Actual expenditure incurred
(B) 10% of NAV
(C) 20% of NAV
(D) 30% of NAV
84. Which of following is an example of Income from other Sources ?
- (A) Rent received from letting out a house
(B) Basic salary
(C) Profit from sale of business stock
(D) Winning from lotteries
81. निम्नलिखित में से कौन-सा आय, धारा 10 के अन्तर्गत कर मुक्त आय नहीं है?
- (A) भारत में कृषि आय
(B) विदेशी कम्पनी से प्राप्त लाभांश
(C) फर्म से प्राप्त साझेदार को लाभ का अंश
(D) एलआईसी से प्राप्त राशि (शर्तों के अधीन)
82. ग्रेज्युइटी भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत न आने वाले कर्मचारियों के लिए, धारा 10(10) के तहत कर मुक्त ग्रेज्युइटी की अधिकतम राशि क्या है?
- (A) ₹ 20,00,000
(B) ₹ 25,00,000
(C) ₹ 5,00,000
(D) ₹ 10,00,000
83. 'मकान सम्पत्ति से आय' शीर्षक में सम्पत्ति के मरम्मत एवं अनुरक्षण हेतु मानक कटौती की दर क्या है?
- (A) वास्तविक व्यय का भुगतान
(B) शुद्ध वार्षिक मूल्य का 10%
(C) शुद्ध वार्षिक मूल्य का 20%
(D) शुद्ध वार्षिक मूल्य का 30%
84. निम्नलिखित में से कौन-सा अन्य साधनों से आय का एक उदाहरण है?
- (A) किराये पर उठाये गये मकान से प्राप्त किराया
(B) मूल वेतन
(C) व्यवसायिक रहतिया के विक्रय से लाभ
(D) लॉटरी की जीत से आय

85. What is the rate of surcharge for an individual having total income exceeding 50 lakhs but up to 1 crore?
 (A) 05%
 (B) 10%
 (C) 15%
 (D) 20%
85. एक व्यक्ति की दशा में कुल आय ₹ 50 लाख से अधिक लेकिन 1 करोड़ रुपये तक, के लिए अधिभार की दर क्या है?
 (A) 05%
 (B) 10%
 (C) 15%
 (D) 20%
86. Which of the following describes the 'Financial Year' in the context of Income Tax ?
 (A) 1st January to 31st December
 (B) The year in which income is earned
 (C) The year in which tax is paid
 (D) None of these
86. आयकर के सन्दर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा वित्तीय वर्ष को वर्णित करता है?
 (A) 1 जनवरी से 31 दिसम्बर
 (B) जिस वर्ष आय अर्जित होता है
 (C) वह वर्ष जिसमें कर का भुगतान होता है
 (D) इनमें से कोई नहीं
87. Which of the following is an example of a 'perquisite' in salary ?
 (A) Overtime pay
 (B) Basic pay
 (C) Dearness Allowance
 (D) Rent free Accommodation
87. निम्नलिखित में से कौन-सा वेतन शीर्षक के अन्तर्गत अनुलाभ का उदाहरण है :
 (A) अधिसमय भुगतान
 (B) मूल वेतन
 (C) महंगाई भत्ता
 (D) किराये से मुक्त आवास की सुविधा
88. Income Tax in India is calculated on :
 (A) Gross Total income
 (B) Total income
 (C) Both (A) and (B)
 (D) None of these
88. भारत में आयकर की गणना की जाती है :
 (A) सकल कुल आय
 (B) कुल आय
 (C) दोनों (A) और (B)
 (D) इनमें से कोई नहीं
89. Health and Education cess is levied on:
 (A) Total Income
 (B) Gross Total Income
 (C) Income tax
 (D) Income Tax and surcharge
89. स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर की गणना की जाती है :
 (A) कुल आय पर
 (B) सकल कुल आय पर
 (C) आय कर की राशि पर
 (D) आयकर एवं अधिभार पर

90. The maximum ceiling for standard Deduction under section 16 (ia) for salaried employee is :
- (A) ₹ 50,000
(B) ₹ 75,000
(C) ₹ 1,00,000
(D) ₹ 1,25,000
91. House Rent Allowance is least exempt under section 10 (13A) based on :
- (A) Actual HRA Received
(B) 40% or 50% of salary
(C) Rent paid (-) 10% of Salary
(D) All of the above (Whichever is minimum)
92. The net annual value (NAV) of a self occupied property is always :
- (A) Nil
(B) Municipal Value
(C) Fair Rent
(D) Standard Rent
93. Municipal taxes are deductible from Gross Annual value if :
- (A) They are paid by the tenant
(B) They are due but not paid
(C) They are paid by owner during the previous year
(D) They are paid by the government
94. Entertainment Allowance is deductible only for :
- (A) Private Sector Employee
(B) Government Employees
(C) Both (A) and (B)
(D) None of these
90. वेतनभोगी कर्मचारी के लिए धारा 16(ia) के अन्तर्गत मानक कटौती की अधिकतम सीमा है :
- (A) ₹ 50,000
(B) ₹ 75,000
(C) ₹ 1,00,000
(D) ₹ 1,25,000
91. धारा 10(13A) के अन्तर्गत मकान किराया भत्ता से जो सबसे कम हो, की कर मुक्त होगा :
- (A) वास्तविक मकान किराया भत्ता प्राप्त
(B) वेतन का 40% या 50%
(C) देय किराया (-) वेतन का 10%
(D) उपरोक्त सभी (इनमें से जो भी सबसे कम हो)
92. स्वयं के रहने के मकान का शुद्ध वार्षिक मूल्य सदैव होगा :
- (A) शून्य
(B) नगरपालिका मूल्य
(C) उचित किराया
(D) मानक किराया
93. सकल वार्षिक मूल्य से नगरपालिका कर कटौती योग्य है यदि :
- (A) ये किरायेदार द्वारा चुकाया है
(B) कर देय किन्तु भुगतान नहीं किया
(C) गतवर्ष में स्वामी द्वारा चुकाया गया
(D) सरकार द्वारा चुकाया जाता है
94. मनोरंजन भत्ता कटौती योग्य है केवल :
- (A) निजी क्षेत्र के कर्मचारी के लिए
(B) सरकारी कर्मचारी के लिए
(C) दोनों (A) और (B)
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

95. Who is an 'Assessee' as per the Act ? 95. अधिनियम के अनुसार करदाता कौन है :
- (A) Only Companies (A) केवल कम्पनी
(B) Only NRIs (B) केवल एन.आर.आई.
(C) Only those who pay tax (C) केवल वे जो कर चुकाते हैं
(D) A person liable to pay any tax or sum of money (D) व्यक्ति जिस पर कोई कर अथवा धनराशि चुकाने का दायित्व हो
96. What is the maximum exemption limit for an individual (under 60 years) for Assessment year, 2026-27? 96. कर निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के लिए अधिकतम छूट की सीमा क्या है? (नई कर प्रणाली के अन्तर्गत)
- (A) ₹ 7,00,000 (A) ₹ 7,00,000
(B) ₹ 10,00,000 (B) ₹ 10,00,000
(C) ₹ 12,00,000 (C) ₹ 12,00,000
(D) ₹ 15,00,000 (D) ₹ 15,00,000
97. How many heads of income are there under the Income Tax Act ? 97. आयकर अधिनियम के अन्तर्गत, आय के कितने शीर्षक होते हैं?
- (A) 5 (B) 7 (A) 5 (B) 7
(C) 9 (D) 3 (C) 9 (D) 3
98. Which section deals with 'Income from House property' ? 98. कौन-सी धारा मकान सम्पत्ति से आय से सम्बन्धित है :
- (A) Sections 10 to 13 (A) धारा 10 से 13
(B) Sections 22 to 27 (B) धारा 22 से 27
(C) Sections 15 to 17 (C) धारा 15 से 17
(D) Sections 28 to 44 (D) धारा 28 से 44
99. The term "Assessee" includes : 99. करदाता शब्द में शामिल होता है :
- (A) Individual (A) व्यक्ति
(B) Company (B) कम्पनी
(C) HUF and AOP/BOI (C) एच.यू.एफ. और ए.ओ.पी. / बी.ओ.आई.
(D) All of these (D) इनमें से सभी
100. Health cess and Education cess are currently levied at what rate ? 100. स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर गणना की वर्तमान दर क्या है?
- (A) 2% (B) 3% (A) 2% (B) 3%
(C) 4% (D) 5% (C) 4% (D) 5%

Rough Work / रफ कार्य

Example :

Question :

Q.1 (A) ● (C) (D)

Q.2 (A) (B) ● (D)

Q.3 (A) ● (C) (D)

5. Each question carries equal marks. Marks will be awarded according to the number of correct answers you have.
6. All answers are to be given on OMR Answer Sheet only. Answers given anywhere other than the place specified in the answer sheet will not be considered valid.
7. Before writing anything on the OMR Answer Sheet, all the instructions given in it should be read carefully.
8. After the completion of the examination, candidates should leave the examination hall only after providing their OMR Answer Sheet to the invigilator. Candidate can carry their Question Booklet.
9. There will be no negative marking.
10. Rough work, if any, should be done on the blank pages provided for the purpose in the booklet.
11. To bring and use of log-book, calculator, pager & cellular phone in examination hall is prohibited.
12. In case of any difference found in English and Hindi version of the question, the English version of the question will be held authentic.

Imp. On opening the question booklet, first check that all the pages of the question booklet are printed properly. If there is any discrepancy in the question Booklet, then after showing it to the invigilator, get another question Booklet of the same series.

उदाहरण :

प्रश्न :

प्रश्न 1 (A) ● (C) (D)

प्रश्न 2 (A) (B) ● (D)

प्रश्न 3 (A) ● (C) (D)

5. प्रत्येक प्रश्न के अंक समान हैं। आपके जितने उत्तर सही होंगे, उन्हीं के अनुसार अंक प्रदान किये जायेंगे।
6. सभी उत्तर केवल ओ०एम०आर० उत्तर-पत्रक (OMR Answer Sheet) पर ही दिये जाने हैं। उत्तर-पत्रक में निर्धारित स्थान के अलावा अन्यत्र कहीं पर दिया गया उत्तर मान्य नहीं होगा।
7. ओ०एम०आर० उत्तर-पत्रक (OMR Answer Sheet) पर कुछ भी लिखने से पूर्व उसमें दिये गये सभी अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया जाये।
8. परीक्षा समाप्ति के उपरान्त परीक्षार्थी कक्ष निरीक्षक को अपनी OMR Answer Sheet उपलब्ध कराने के बाद ही परीक्षा कक्ष से प्रस्थान करें। परीक्षार्थी अपने साथ प्रश्न-पुस्तिका ले जा सकते हैं।
9. निगेटिव मार्किंग नहीं है।
10. कोई भी रफ कार्य, प्रश्न-पुस्तिका में, रफ-कार्य के लिए दिए खाली पेज पर ही किया जाना चाहिए।
11. परीक्षा-कक्ष में लॉग-बुक, कैल्कुलेटर, पेजर तथा सेल्युलर फोन ले जाना तथा उसका उपयोग करना वर्जित है।
12. प्रश्न के हिन्दी एवं अंग्रेजी रूपान्तरण में भिन्नता होने की दशा में प्रश्न का अंग्रेजी रूपान्तरण ही मान्य होगा।

महत्वपूर्ण: प्रश्नपुस्तिका खोलने पर प्रथमतः जाँच कर देख लें कि प्रश्नपुस्तिका के सभी पृष्ठ भलीभाँति छपे हुए हैं। यदि प्रश्नपुस्तिका में कोई कमी हो, तो कक्षनिरीक्षक को दिखाकर उसी सिरीज की दूसरी प्रश्नपुस्तिका प्राप्त कर लें।